

एक संपर्क जाँच क्या है?

फेफड़ों के संक्रामक रोग तपेदिक के रोगी के संपर्क में रहने वाले लोगों की जाँच यह देखने के लिए की जाती है कि क्या उन्हें रोगी द्वारा संक्रमण हुआ है या वे खुद बीमार हैं या नहीं। जाँच में एक **ट्यूबरकुलीन त्वचा जाँच** या **छाती का एक्स-रे** शामिल है।

रोगी के संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जाँच की जानी चाहिए ताकि संक्रमण के स्रोत की खोज हो सके।



क्या आप और अधिक पता लगाना चाहते हैं?

किसी चिकित्सक की सलाह लें।

www.zorg-en-gezondheid.be पर जाएँ या अपने प्रांत की एजेंसी "Zorg en Gezondheid" से संपर्क करें:

- \ एंटवर्प: 03 224 62 04
- \ लिम्बर्ग: 011 74 22 40
- \ ईस्ट फ्लैंडर्स: 09 276 13 80
- \ फ्लेमिश ब्रैबंट: 016 66 63 50
- \ वेस्ट फ्लैंडर्स: 050 24 79 00

www.vrgt.be पर जाएँ या अपने प्रांत के फ्लेमिश "Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding" (असोसिएशन फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ केयर एंड ट्यूबरक्यूलोसिस) (VRGT) से संपर्क करें:

- \ एंटवर्प:
बर्चम: 03 287 80 10 - टर्नहॉट: 014 41 13 62
- \ लिम्बर्ग: 011 22 10 33
- \ ईस्ट फ्लैंडर्स: 09 225 22 58
- \ फ्लेमिश ब्रैबंट: 016 33 25 52
- \ वेस्ट फ्लैंडर्स: 059 70 26 85

Resp. ed.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



Vlaanderen
is zorg

ट्यूबरकुलीन त्वचा जाँच

तपेदिक की पहचान के लिए

**AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID**

ट्यूबरकुलीन त्वचा जाँच (मैन्टौक्स टेस्ट या इंस्ट्राडर्मल टेस्ट) यह दिखाने के लिए किया जाता है कि क्या आप ट्यूबर्कल बेसिलस (कोच के बेसिलस) से संक्रमित हैं, जो कि तपेदिक का कारण है। आमतौर पर फेफड़ों के तपेदिक के रूप में जाना जाने वाला यह रोग कभी-कभी गुर्दे, हड्डियों, मस्तिष्क, ग्रंथियों और अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है।

जाँच कैसे की जाती है?

द्रव (ट्यूबरकुलीन) की थोड़ी सी मात्रा व्यक्ति की बाँह की त्वचा में डाली जाती है। जाँच के दो दिन बाद परिणाम की जाँच होती है।

ट्यूबरकुलीन त्वचा जाँच खतरनाक नहीं है और छोटे बच्चों या गर्भवती महिलाओं पर भी की जा सकती है।

परिणाम नेगेटिव है

यदि जाँच परिणाम का एक चेक आपकी बाँह पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिखाने में विफल रहता है तो इसका मतलब है कि आप संभवतः ट्यूबर्कल बेसिलस से संक्रमित नहीं हैं।

कभी-कभी दो महीने के बाद एक नियंत्रण जाँच की जानी चाहिए।

परिणाम अनिश्चित है

यदि प्रतिक्रिया के रूप में आपकी बाँह का एक छोटा-सा भाग फूल गया है जो पीले या फीके रंग का है तो यह स्पष्ट नहीं है कि आप संक्रमित हैं या नहीं।

जब परिणाम के बारे में कोई अनिश्चितता हो तो फिर से जाँच की जानी चाहिए (आमतौर पर दो महीने बाद)।

परिणाम पॉजिटिव है

यदि प्रतिक्रिया के रूप में त्वचा का एक भाग फूलकर कठोर हो गया है तो इसका मतलब है कि आप संक्रमित हैं।

पॉजिटिव ट्यूबरकुलीन त्वचा जाँच की स्थिति में यह देखने के लिए कि क्या तपेदिक फैल गया है, आपको छाती का एक्स-रे कराना होगा, यदि एक्स-रे सामान्य है तो आप संक्रमित हैं लेकिन बीमार नहीं हैं और न ही आप दूसरों के लिए संक्रामक हैं।

कुछ मामलों में छह से नौ महीने तक एक दवा लेने की सलाह दी जाती है, इससे तपेदिक के विकास के खतरे को लगभग 80% तक कम किया जा सकता है।

छाती के एक्स-रे में तपेदिक के घाव दिखाई दें तो आपको उपचार शुरू करना होगा। तीन या अधिक दवाइयाँ कम से कम छह महीने तक बहुत नियमित रूप से ली जानी चाहिए।

पॉजिटिव ट्यूबरकुलीन त्वचा जाँच

